

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

अधि. क्र. 02-एफ-1-27-2012-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित क्षेत्रों को, नगरपालिका क्षेत्र छतरपुर की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने के आशय की घोषणा करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

छतरपुर की नगरपालिका परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

अनु- क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्र का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छतरपुर	छतरपुर	1 से 24, 47 से 50, 164 से 195, 322 से 437, 442, 443, 444, 445, 446, 701, 702, 703, 704, 705, 742 से 759, 767, 784, 1105 से 1351, 1585 से 1858, 2200 से 2291, 2967, 2968, 2969, 2970, 3203 3220 से 3935.	2319—9275	सम्पूर्ण
2	छतरपुर	बगौता	1 से 51, 211 से 243, 485 से 631, 904 से 962, 1074 से 1554, 1556 से 1995.	2817—97	सम्पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	छतरपुर	सौरा	258, 259, 260, 261, 262, 263, 273, 274, 307 से 323, 329 से 342, 346 से 358, 367 से 444, 801 से 829, 831 से 857, 859 से 930, 932 से 1041, 1043 से 1328, 1389, 1390, 1391, 1416 से 1440, 1450 से 1456, 1464 से 1500, 1523 से 1534, 1537 से 1655, 1657 से 2146, 2158 से 2178, 2182 से 2185, 2188 से 2220, 2225 से 2362.	1552—600	सम्पूर्ण
4	छतरपुर	टडेरा	308 से 317, 326, 328 से 333	17—3775	सम्पूर्ण
5	छतरपुर	चन्द्रपुरा गठेवरा	1-2-24-25-60 से 100, 403 से 469, 689, 403	162—28	सम्पूर्ण
6	छतरपुर	नारायणपुरा	421, 522 से 524, 532 से 619	124—895	सम्पूर्ण
7	छतरपुर	बकायन	158 से 436, 499, 572 से 650	610—82	सम्पूर्ण
8	छतरपुर	अमानगंज	111, 124 से 129, 143 से 154, 196 से 228, 243 से 328.	336—4975	सम्पूर्ण
9	छतरपुर	मौराहा	1 से 49, 55-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-1068-1097 से 1114, 1117 से 1133, 1135 से 1166.	205—04	सम्पूर्ण
10	छतरपुर	पलौठा	291-292-293-299-300-329, 330-331, 332, 463 से 532, 539 से 626, 663, 664, 665, 671 से 757, 792.	417—7025	सम्पूर्ण

अनुसूची-दो

अनुसूची-एक में दर्शाए गए क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात्, छतरपुर नगरपालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

उत्तर दिशा—उत्तर की ओर सीमा, नौगांव रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 75) पर स्थित लो.नि.वि. की पुलिया क्रमांक 19/2 से प्रारंभ होकर ग्राम सौरा के सर्वे क्रमांक 950, 949, 946, 947, 939, 936, 935, 908, 907, 904, 903, 892, 882, 883, 881, 880, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 1173, 1174, 1175, 1210, 1288, 1287, 1286, 1285, 1283, 1389, 1390, 1391, 1416, 1420, 1421, 1423, 1424, 1440, 1439, 1450, 1524, 1523, 1526, 1534, 1537, 1538, 1539, 2146, 2145, 2144, 2162, 2158, 2178, 2182, 2185, 2188, 2189, 2220, 2226, 2225, 444, 443, 442, 307, 308, 309, 310, 311, 322, 323, 329, 331, 342, 346, 347, 348, 349, 358, 357, 367, 368, 274, 273, 263, 262, 261, 258, 242 एवं ग्राम टडेरा के सर्वे क्रमांक 308, 310, 311, महोबा रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 86) पर 162/2 कि.मी. स्टोन (झनझन देवी मंदिर हेतु रास्ता के प्रवेश द्वार के आगे).

पूर्व दिशा—महोबा रोड 162/2 कि.मी. स्टोन से प्रारंभ होकर ग्राम टडेरा के सर्वे क्रमांक 312, 318, 317, 326, 329, 330, 331, 332, 333 सिंघाडी नदी की सीमा से होते हुए ग्राम सौरा सर्वे क्रमांक 403 (सिंघाडी नदी की सीमा) 404 नगर छतरपुर के सर्वे क्रमांक 1121, 1122, 1124, 1117, 1116, 1125, 1126, 1169, 1152, 1153, 1154, 1165, 1158, 1166, 1159, 1167, 1254, 1259, 1260, 1276, 1278, 1307, 1306, 1608, 1638, 1639, 1642, 1655, 1656, 1657, 1739, 1740, 1741, 1742, 1759, 1743 से होकर सिंघाडी नदी के पार ग्राम पलौठा सर्वे क्रमांक 539, 540, 541, 542, 544, 545, 530, 496, 291, 292, 331, 332, 463, 464, 465, 466, 472, 473, 475,

476, 479, 480, 481, 622, 624, 625, 626, 612, 610, 672, 671, 664, 663, 693, 695, 757, 752, 792, (छत्रसाल नगर के पीछे) से ग्राम छतरपुर सर्वे क्रमांक 3657, 3658, 3659, 3658/3942, 3642, 3660, 3664 तथा ग्राम चन्द्रपुरा, पटवारी हल्का गठेवरा के सर्वे नंबर 1, 2, 24, 25, 61, 60, 70, 99, 100, 94, 93, 92, 91 से पन्ना रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 75) पर 29/4 कि.मी. स्टोन तक.

दक्षिण दिशा—पन्ना रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 75) पर (29/4 कि.मी. स्टोन से प्रारंभ होकर ग्राम चन्द्रपुरा) पटवारी हल्का गठेवरा के सर्वे क्रमांक 410, 408, 407, 406, 405, 403, 689/403, 469, 467, 465, 462, 461, 460, 459, 455, 454, 434, 432, 426 तथा नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 3903, 3935, 3934, 3932, 3930, 3927, 3926, 3921, 3920, 3919, 3525, 3524, 3523, 3499, 3496, 3493, 3492, 3495, 3494, 3491, 3488 तथा ग्राम मौराहा के सर्वे क्रमांक 128, 49, 55, 56, 57, 58, 63, 70, 69, 1068, 1099, 1098, 1108, 1112, 1113, 1114, 1111, 1116, 1163 तथा सटई रोड पर लोक. नि. वि. की पुलिया क्र. 5/1 पर सटई रोड पार करते हुए ग्राम मौराहा के सर्वे क्रमांक 1164, 1165, 1162, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155 तथा ग्राम बगौता के सर्वे नंबर 1986, 1987, 1991, 1992, 1995, 1994, 1963, 1925, 1923, 1931, 1930, 1914, 1913, 1266, 1262, 1261, 1263, 1267, 1260, 1259, 1257, 1254, 1253, 1074, 1075, 957, 962, 904, 905, 906, 920, 921, 923, 924, 1078, 628, 629, 630, 631, 625, 618, 617, 546, 538, 537, 536, 534, 533, 507, 506, 596, 597, 498, 499, 500, 491, 490, 486, 488, 489, 516, 233, 244, 226, 225, 224, 223, 222, 211, 212, 213 सागर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 86) पर 152/8 कि.मी. स्टोन तक.

पश्चिम दिशा—सागर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 86) पर 152/8 कि.मी. स्टोन से ग्राम बगौता के सर्वे क्रमांक 51, 33, 32, 31, पटवारी हल्का अमानगंज के सर्वे क्रमांक 322, 328, 327, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 258, 257, 253, 252, 234, 235, 237,228, 217, 214, 213, 145, 143, 130, 129, 128, 126, 111, 124, 154, 209, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 44 पटवारी हल्का बकायन के सर्वे क्रमांक 573, 574, 585, 572, 586, 587, 537, 602, 608, 611, 612, 610, 615, 616, 617, 618, 499, 402, 422, 436, 181, 180 पठापुर रोड पार करते हुये ग्राम बकायन के सर्वे क्रमांक 163, 158, 159, 160, 161, 167, 175 पटवारी हल्का छतरपुर के सर्वे क्रमांक 374, 310, 367, 365, 342, 341,340, 339, 338, 337, 336, 334, 333, 332 पटवारी हल्का नारायणपुरा के सर्वे क्रमांक 542, 421, 533, 532, 534 नारायणपुरा रोड पार करते हुए पटवारी हल्का नारायणपुरा सर्वे क्रमांक 524, 522 से ग्राम सौरा सर्वे क्रमांक 1869, 1863, 1862, 1861, 1859, 1848, 1847, 1846, 1842, 1841, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1824, 1823, 1822, 1820, 1801, 1800, 1799, 1794, 1793, 1790, 1789, 1788, एवं 1028 से नौगांव रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 75) पर स्थित लो.नि.वि. की पुलिया क्र. 19/2 तक.

2. यह अधिसूचना इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

Not. No. 02-F-1-27--2012-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to declare the intention to include the areas as mentioned in Schedule below within the limits of Municipal area of Chhatarpur, namely :—

SCHEDULE-I

Area included in the Municipal limits of Chhatarpur

S.No.	Tehsil	name of village	Survey No. to be included	Area in Acre	Detail of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chhatarpur	Chhatarpur	1 to 24, 47 to 50, 164 to 195, 322 to 437, 442, 443, 444, 445, 446, 701, 702, 703, 704, 705, 742 to 759, 767, 784, 1105 to 1351,	2319.9275	All

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1585 to 1858, 2200 to 2291, 2967, 2968, 2969, 2970, 3203, 3220 to 3935.		
2	Chhatarpur	Bagauta	1 to 51, 211 to 243, 485 to 631, 904 to 962, 1074 to 1554, 1556 to 1995.	2817.97	All
3	Chhatarpur	Saunra	258, 259, 260, 261, 262, 263, 273, 274, 307 to 323, 329 to 342, 346 to 358, 367 to 444, 801 to 829, 831 to 857, 859 to 930, 932 to 1041, 1043 to 1328, 1389, 1390, 1391, 1416 to 1440, 1450 to 1456, 1464 to 1500, 1523 to 1534, 1537 to 1655, 1657 to 2146, 2158 to 2178, 2182 to 2185, 2188 to 2220, 2225 to 2362.	1552.600	All
4	Chhatarpur	Tadera	308 to 317, 326, 328 to 333.	17.3775	All
5	Chhatarpur	Chandrapura Gathewra.	1, 2, 24, 25, 60 to 100, 403 to 469, 689/403	162.28	All
6	Chhatarpur	Narayanpura	421, 522 to 524, 532 to 619	124.895	All
7	Chhatarpur	Bakayan	158 to 436, 499, 572 to 650	610.82	All
8	Chhatarpur	Amanganj	111, 124 to 129 143 to 154, 196 to 228 243 to 328.	336.4975	All
9	Chhatarpur	Mauraha	1 to 49, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1068, 1097 to 1114, 1117 to 1133, 1135 to 1166.	205.04	All
10	Chhatarpur	Palautha	291, 292, 293, 299, 300, 329, 330, 331, 332, 463 to 532, 539 to 626, 663, 664, 665, 671 to 757, 792	417.7025	All

SCHEDULE-II

After including the area shown in the Schedule-I, the revised boundaries of Municipality Chhatarpur will be as follows:—

North direction.—The boundary towards the north starting from culvert numbers 19/2 of p.w.d. at Nowgong road (N.H. 75) to village saunra survey numbers 950, 949, 946, 947, 939, 936, 935, 908, 907, 904, 903, 892, 882, 883, 881, 880, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 1173, 1174, 1175, 1210, 1288, 1287, 1286, 1285, 1283, 1389, 1390, 1391, 1416, 1420, 1421, 1423, 1424, 1440, 1439, 1450, 1524, 1523, 1526, 1534, 1537, 1538, 1539, 2146, 2145, 2144, 2162, 2158, 2178, 2182, 2185, 2188, 2189, 2220, 2226, 2225, 444, 443, 442, 307, 308, 309, 310, 311, 322, 323, 329, 331, 342, 346, 347, 348, 349, 358, 357, 367, 368, 274, 273, 263, 262, 261, 258, 242, and village tadera survey numbers 308, 310, 311 to km. stone 162/2 of Mahoba road (N.H. 86) (ahead of Jhanjhan Devi Temple approach road)

East direction.—Starting from Mahoba road k.m. stone 162/2 to village Tadera survey numbers 312, 318, 317, 326, 329, 330, 331, 332, 333, along river Singhari to village saunra Survey numbers, 403

(Singhari river boundary) 404 through town Chhatarpur survey numbers 1121, 1122, 1124, 1117, 1116, 1125, 1126, 1169, 1152, 1153, 1154, 1165, 1158, 1166, 1159, 1167, 1254, 1259, 1260, 1276, 1278, 1307, 1306, 1608, 1638, 1639, 1642, 1655, 1656, 1657, 1739, 1740, 1741, 1742, 1759, 1743, Across singhari, river, village Palautha, survey numbers, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 530, 496, 291 292, 331, 332, 463, 464, 465, 466, 472, 473, 475, 476, 479, 480, 481, 622 624, 625, 626, 612, 610, 672, 671, 664, 663, 693, Palotha Tiraha 695, 757, 752, 792, (behind Chhatrasal Nagar, Colony) to village Chhatarpur, survey numbers. 3657, 3658, 3659, 3658/3942, 3660, 3664, and village Chandrapura) patwari Halka Gathewra (survey numbers 1, 2, 24, 25, 61, 60, 70, 99, 100, 94, 93, 92, 91 to k.m. stone 29/4 on Panna road) N.H. 75) .

South direction.—Starting from k.m. stone 29/4 on Panna road (N.H. 75 (Stone villag Chandrapura) patwari halka Gathewra, (sss survey numbers. 410, 408, 407, 406, 405, 403, 689/403, 469, 467, 465, 462, 461, 460, 459, 455, 454 434, 432, 426, and town Chhatarpur survey no 3903, 3935, 3935, 3934, 3932, 3930, 3927, 3926, 3921, 3920, 3919, 3525, 3524, 3523, 3499, 3496, 3493, 3492, 3495, 3494, 3491, 3488 and village Mauraha survey numbers 128, 49, 55, 56, 57, 58, 63, 70, 69, 1068, 1099, 1098, 1108, 1112, 1113, 1114, 1111, 1116, 1163. crossing satai road at culvert numbers 5/1 of p.w.d. at satai road through village Mauraha survey no 1164, 1165, 1162, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, and village Bagauta survey numbers 1986, 1987, 1991, 1992, 1995, 1994, 1963, 1925, 1923, 1931, 1930, 1914, 1913, 1266, 1262, 1261, 1263, 1267, 1260, 1259, 1257, 1254, 1253, 1074, 1075, 957, 962, 904, 905, 906, 920, 921, 923, 924, 1078, 628, 629, 630, 631, 625, 618, 617, 546, 538, 537, 536, 534, 533, 507, 506, 596, 597, 498, 499, 500, 491, 490, 486, 488, 489, 516, 233, 244, 226, 225, 224, 223, 222, 211, 212, 213 to km stone 152/8 at Sagar road (N. H. 86)

West direction.—Starting from km stone 152/8 at Sagar road (N.H. 86) to village Vagauta survey numbers 51, 33, 32, 31 to Patwari Halka Amanganj survey numbers 322, 328, 327, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 258, 257, 253, 252, 234, 235, 237, 228, 217, 214, 213, 145, 143, 130, 129, 128, 126, 111, 124, 154, 209, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 44, to Patwari Halka Bakayan survey numbers 573, 574, 585, 572, 586, 587, 537, 602, 608, 611, 612, 610, 615, 616, 617, 618, 499, 402, 422, 436, 181, 180, crossing Pathapur road to village Bakayan survey numbers 163, 158, 159, 160, 161, 167, 175, and Patwari Halka Chhatarpur survey numbers 374, 310, 367, 365, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 334, 333, 332 and Patwari Halka Narayanpura survey numbers 542, 421, 533, 532, 534, crossing Narayanpura road to Patwari Halka Narayanpura survey numbers 524, 522, to village Saunra survey numbers 1869, 1863, 1862, 1861, 1859, 1848, 1847, 1846, 1842, 1841, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1824, 1823, 1822, 1820, 1801, 1800, 1799, 1794, 1793, 1790, 1789, 1788 and 1028 to P.W.D culvert no 19/2 of Nowgong road (NH 75) .

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.